

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 10.09.2021

चोरी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में उ0नि0 धर्मेन्द्र जैन मय हमराह पुलिस टीम को थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 114/2020 धारा 380/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। उ0नि0 धर्मेन्द्र जैन मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व बैंक चेकिंग मे भगत चौराहा पर मौजूद थे कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त इस समय रामपुर हनुमान मंदिर तिराहा के पास एक गुमटी के पास खड़ा है अगर जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 धर्मेन्द्र जैन मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास के बताये गये स्थान पर पहुँच कर वहाँ खड़े व्यक्ति को हिकमत अमली से घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम वीरू पुत्र मोनई निषाद निवासी रामगढ़ थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बताया । अभियुक्त वीरू उपरोक्त को उसके जुर्म का बोध कराते हुए समय करीब 10.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया जिसके सम्बन्ध मे आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

वीरू पुत्र मोनई निषाद निवासी रामगढ़ थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी हुई

मु0अ0सं0- 114/2020 धारा 380/411 भादवि, थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र जैन, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 लक्ष्मण सिंह, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
4. का0 देवानन्द चौधरी, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
5. का0 अंकित कुमार सिंह, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर